

राजस्थान सरकार

## नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

दिनांक : 4/6.3.1992

क्रमांक : प. 5(21) नविआ./86

प्रेषित:

1. सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

2. सचिव,  
समस्त नगर विकास न्यास, राजस्थान

**विषय:** नगरीय क्षेत्रों में कृषि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण एवं नियमितीकरण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में निदेशानुसार लेख है कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग ने नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के रूपान्तरण एवं नियमितीकरण हेतु वर्ष 1981 में नियम बनाये थे, इन नियमों के अन्तर्गत कृषि भूमि के रूपान्तरण एवं नियमितीकरण की कार्यवाही की जारही थी परन्तु अधिकारी व्यक्तियों/गृह निर्माण सहकारी समितियों ने यह भूमि इकरारनामे के आधार पर क्रय कर भूमि का कब्जा प्राप्त किया था। परन्तु उपरोक्त नियमों के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी भूमि का रूपान्तरण नहीं हो सकता था क्योंकि ऐसी भूमि का उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए राजस्व विभाग ने अधिसूचना संख्या प. 2(8) राज/भू.रु./90, दिनांक 3.3.92 के द्वारा नियमों में संशोधन कर दिया है। अतः इस संशोधन संख्या प. 2(8) राज/भू.रु./90, दिनांक 3.3.92 के द्वारा नियमों में संशोधन कर दिया था। अतः इस संशोधन के अनुसार जिन व्यक्तियों/गृह निर्माण सहकारी समितियों अथवा उनके सदस्यों ने दिनांक 20.8.81 के पूर्व के इकरारनामे के आधार पर भूमि क्रय कर दिनांक 1.5.92 के पूर्व रूपान्तरण शुल्क की आंशिक विक्रय के इकरारनामे के आधार पर भूमि क्रय कर दिनांक 1.5.92 के पूर्व रूपान्तरण शुल्क की आंशिक या सम्पूर्ण राशि राजकोष में जमा करा दी है उनकी भूमि उक्त संशोधन के अनुसार अब रूपान्तरण/नियमित हो सकेगी। उक्त नियमों में कुछ और संशोधन भी किये हैं। इस बाबत राजस्व विभाग ने उक्त पत्र दिनांक प. 2(8) राज/भू.रु./90 दिनांक 4.3.92 (प्रतिलिपि संलग्न है) के द्वारा विस्तृत निर्देश समस्त जिला कलेक्टर को जारी किये हैं। इन निर्देशों का कृपया ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें और अनुसार कार्यवाही करें।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार कृषि भूमि के रूपान्तरण एवं नियमितीकरण हेतु निम्न प्रकार से कार्यवाही की जावे-

जिन व्यक्तियों/गृह निर्माण सहकारी समितियों अथवा उनके सदस्यों ने दिनांक 20.8.1981 के पूर्व कृषि भूमि विक्रय इकरारनामे के आधार पर क्रय कर रूपान्तरण शुल्क आंशिक या पूर्ण दिनांक 31.5.82 के पूर्व राजकोष में जमा करा दिया है एवं जिन भूमियों बाबत स्पष्ट स्वामित्व है तथा जिनमें किसी कानून की अड़चन नहीं है वहाँ कृषि भूमि रूपान्तरण नियम, 1981 के प्रावधान के अनुसार रूपान्तरण एवं नियमितीकरण होने के पश्चात् भवन निर्माण के मानचित्र अनुमोदित कर दिये जाते।

जिन नारों के अभी ड्राफ्ट मास्टर फ्लान नहीं बने हैं उनमें गृह उपयोगी उद्देश्यक आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ड्राफ्ट मास्टर फ्लान की कोई वैशिक मान्यता नहीं है एवं विना गृह उपयोग परिवर्तन के रूपान्तरण

(2)

अधिकारी रूपान्तरण हेतु आदेश पारित करने के लिये सक्षम है परन्तु यह निर्णय माउन्ट आवृ, पुष्कर, जैसलमेर एवं नाथद्वारा के नगरों पर लागू नहीं होते।

### सुविधा क्षेत्र

गृह निर्माण सहकारी समितियों की योजनाओं के रूपान्तरण/नियमितीकरण स्वीकृत करते समय सुविधा क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्न प्रकार कार्यवाही की जावेगी:-

जिन मामलों में न्यायालय के आदेश तथा निर्मित भवन को छोड़कर सुविधा में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित भू-खण्डों का रूपान्तरण/नियमितीकरण नहीं किया जावेगा। सुविधा क्षेत्र में न्यायालयों के आदेश अथवा निर्मित भवनों को ही रूपान्तरण/नियमितीकरण किया जावेगा। जहां सुविधा क्षेत्र में निर्मित भवनों के अथवा न्यायालयों के आदेशों के कारण बचे हुए खाली भू-खण्डों की भूमि को सुविधा क्षेत्र की भाँति उपयोग नहीं हो सकता है वहां स्थानीय निकाय की सिफारिश पर उन बचे हुए भूखण्डों का रूपान्तरण/नियमितीकरण कर दिया जावेगा।

### विकास शुल्क

विकास शुल्क की राशि निम्न दर से ली जावेगी:-

1. जयपुर के लिये 25 रुपये प्रति वर्ग गज
2. अन्य संभागीय मुख्यालयों के शहरों एवं गंगानगर के लिये 20 रुपये प्रति वर्ग गज
3. अन्य जिला मुख्यालयों के नगरों के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग गज
4. शेष अन्य सभी नगरों के लिए 10 रुपये प्रति वर्ग गज
5. परिधि विकास शुल्क जयपुर में 5 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से लिया जावेगा। अन्य नगरों में परिधि विकास शुल्क नहीं लिया जावेगा।

### भवन निर्माण की अवधि-

ब्रह्मानन्द नियमों में रूपान्तरण भू-खण्ड पर भवन निर्माण हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है। अब यह निर्णय लिया गया है कि रूपान्तरित भूमि के भूखण्ड की लीज ढीड़ जारी होने के तारीख से पांच वर्ष की अवधि में भवन निर्माण करवाना आवश्यक होगा अन्यथा 5 वर्ष के पश्चात् जब तक भूखण्ड पर नियमानुसार होने वाले भवन का पूर्ण निर्माण नहीं हो जाता तक प्रति वर्ग के लिए उस क्षेत्र की सुरक्षित दर की आधा प्रतिशत राशि शास्ति के साथ में सम्बन्धित स्थानीय निकाय में देय होगी जिस नियमानुसार वसूल किया जा सकेगा। नियमों के अन्तर्गत जारी होने वाली लीज ढीड़ के प्राप्ति में इस संदर्भ में संशोधन कर दियाय गया है।

उपरोक्त निर्णय निम्न मामलों में लागू नहीं होते-

1. यदि भूमि (अधिकारी समा एवं विनियम) अधिनियम, 1976 से प्रभावित है तो भूमि पूरीमें के आधार पर अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व क्रय की हो।

2. यदि भूमि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 से प्रभावित है।
3. यदि भूमि अवाप्त शुदा है या अवाप्ताधीन है।
4. यदि भूमि राजस्थान भूमि सुधार तथा भू-स्वामियों की सम्पदाओं का अर्जन अधिनियम, 1963 से प्रभावित है।
5. यदि भूमि गृह निर्माण सहकारी समिति या सर्वर्ण व्यक्ति ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों से क्रय की है।
6. यदि भूमि राजस्थान बन अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का भाग है। किन्तु यदि किसी गृह निर्माण सहकारी समिति को कोई योजना अथवा किसी व्यक्ति की कृषि भूमि आशिक रूप से ही उद्दत कारणों से प्रणालित है तो उस भूमि का वह भाग जो प्रभावित नहीं है का रूपान्तरण/नियमितीकरण किया जा सकेगा।

**अस्वीकृत योजना:-** भूमि के स्वामित्व के अभाव के कारण पूर्व में जिन योजनाओं को अस्वीकृत किया जा चुका है उनमें प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर योजना को उपरोक्तानुसार अनुनोदन करने की कार्यवाही की जावे।

**मास्टर प्लान:-** कृषि भूमि रूपान्तरण नियमितीकरण के मामलों में मास्टर प्लान के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से कार्यवाही की जावेगी:-

1. जिन नगरों के मास्टर प्लान स्वीकृत किये जा चुके हैं और उनमें भूमि का उपयोग रिहायेशी के बजाय अन्य उपयोग दिखाया गया है तो इस प्रकार की भूमि का मास्टर प्लान में उपयोग गुण-अवगुण के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लेकर जारी कर दिया जायेगा। इस नाबत प्रस्ताव सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा इस विभाग को भिजवाया जावे। जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में मास्टर प्लान के अन्तर्गत भू उपयोग के सभी प्रकार के परिवर्तनों की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रदत्त की जाती है। जयपुर विकास प्राधिकरण को राज्य सरकार की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 मास्टर प्लान में भू उपयोग उपयोग परिवर्तन के लिये सरकार की पूर्वानुमति समझी जावे।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु विचाराधीन मानते तत्परता से निपटाने की कार्यवाही की जावे। तथा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लौज़ डीड जारी करने के पश्चात् भवन निर्माण के मानचित्र तत्परता से अनुमादन करने की कार्यवाही की जावे। इस दिनांग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त निर्देशों जो उपरोक्त निर्देशों से विरोधाभास रखते हों उस सीमा तक निरस्त समझे जावे।

**संलग्न उपरोक्तानुसार**

**भवदीय**

ह.-

(आर.पी. मीना)

शासन उप सचिव